



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2013/पौष 28, 1934

No. 9]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 2013/PAUSA 28, 1934

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2013

सं. 1-19/2008-सीएसडब्ल्यूबी.—केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड संघ के अनुच्छेदों में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक ; जो भी पहले हो, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामान्य निकाय का पुनर्गठन करती है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सामान्य निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

I अध्यक्ष

1. अध्यक्ष, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली

II राज्य समाज कल्याण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अध्यक्ष निम्नानुसार :

1. अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड
2. अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश, राज्य समाज कल्याण बोर्ड
3. अध्यक्ष, असम राज्य समाज कल्याण बोर्ड
4. अध्यक्ष, बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड
6. अध्यक्ष, गोवा राज्य समाज कल्याण बोर्ड
7. अध्यक्ष, गुजरात राज्य समाज कल्याण बोर्ड
8. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड
9. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड
10. अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर राज्य समाज कल्याण बोर्ड
11. अध्यक्ष, झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड
12. अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य समाज कल्याण बोर्ड

13. अध्यक्ष, केरल राज्य समाज कल्याण बोर्ड
14. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड
15. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्ड
16. अध्यक्ष, मणिपुर राज्य समाज कल्याण बोर्ड
17. अध्यक्ष, मेघालय राज्य समाज कल्याण बोर्ड
18. अध्यक्ष, मिजोरम राज्य समाज कल्याण बोर्ड
19. अध्यक्ष, नागालैंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड
20. अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य समाज कल्याण बोर्ड
21. अध्यक्ष, पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड
22. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड
23. अध्यक्ष, सिक्किम राज्य समाज कल्याण बोर्ड
24. अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य समाज कल्याण बोर्ड
25. अध्यक्ष, त्रिपुरा राज्य समाज कल्याण बोर्ड
26. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड
27. अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड
28. अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य समाज कल्याण बोर्ड
29. अध्यक्ष, दिल्ली राज्य समाज कल्याण बोर्ड
30. अध्यक्ष, अंडमान और निकोबार राज्य समाज कल्याण बोर्ड
31. अध्यक्ष, चंडीगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड
32. अध्यक्ष, लक्षद्वीप राज्य समाज कल्याण बोर्ड
33. अध्यक्ष, पुदुचेरी राज्य समाज कल्याण बोर्ड

III संसद के प्रतिनिधि

लोक सभा

1. श्रीमती केसर जहां
2. डा. कुपरानी किल्ली

राज्य सभा

1. श्री रामचंद्र खूंटिया - दिनांक 02.04.2014 तक

II पेशेवर अधिकारी (विधि, चिकित्सा, समाज कार्य, शिक्षा, सामाजिक विकास एवं पोषण प्रत्येक के क्षेत्र से एक)

1. श्री अनुराग तिवारी (विधि)
2. डा. लरोया (औषधि)
3. डा. जी मुणिरत्नम(समाज कार्य)
4. सुश्री संगीता संजय देशमुख(शिक्षा)
5. श्री आर.के. सिंगला (सामाजिक विकास)
6. श्री कपिल देव प्रकाश राजपूत (पोषण)

V समाज कार्य में विस्तृत अनुभव वाले प्रख्यात व्यक्ति

1. श्री पुरुषोत्तम जी साहनी
2. सुश्री तृप्ति पारुल
3. श्री एस.एम. सुल्तान

VI भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की रैंक के)

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
6. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
8. योजना आयोग
9. वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

VII कार्यकारी निदेशक, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड

अंजु भल्ला, निदेशक

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2013

No. 1-19/2008-CSWB.—In accordance with the provisions contained in the Articles of Association of the Central Social Welfare Board, the Government of India is pleased to reconstitute the General Body of the Central Social Welfare Board (CSWB) with immediate effect for a period of 3 years or until further orders; whichever is earlier.

The following will be the members of the General Body of the Central Social Welfare Board:

I. Chairperson

1. Chairperson, Central Social Welfare Board, New Delhi.

II All the Chairpersons of State Social Welfare Boards /Union Territories, as under:

1. Chairperson of Andhra Pradesh State Social Welfare Board
2. Chairperson of Arunachal Pradesh State Social Welfare Board
3. Chairperson of Assam State Social Welfare Board
4. Chairperson of Bihar State Social Welfare Board
5. Chairperson of Chhattisgarh State Social Welfare Board
6. Chairperson of Goa State Social Welfare Board
7. Chairperson of Gujarat State Social Welfare Board

8. Chairperson of Haryana State Social Welfare Board
9. Chairperson of Himachal Pradesh State Social Welfare Board
10. Chairperson of Jammu & Kashmir State Social Welfare Board
11. Chairperson of Jharkhand State Social Welfare Board
12. Chairperson of Karnataka State Social Welfare Board
13. Chairperson of Kerala State Social Welfare Board
14. Chairperson of Madhya Pradesh State Social Welfare Board
15. Chairperson of Maharashtra State Social Welfare Board
16. Chairperson of Manipur State Social Welfare Board
17. Chairperson of Meghalaya State Social Welfare Board
18. Chairperson of Mizoram State Social Welfare Board
19. Chairperson of Nagaland State Social Welfare Board
20. Chairperson of Orissa State Social Welfare Board
21. Chairperson of Punjab State Social Welfare Board
22. Chairperson of Rajasthan State Social Welfare Board
23. Chairperson of Sikkim State Social Welfare Board
24. Chairperson of Tamil Nadu State Social Welfare Board
25. Chairperson of Tripura State Social Welfare Board
26. Chairperson of Uttar Pradesh State Social Welfare Board
27. Chairperson of Uttarakhand State Social Welfare Board
28. Chairperson of West Bengal State Social Welfare Board
29. Chairperson of Delhi State Social Welfare Board
30. Chairperson of Andaman & Nicobar Social Welfare Board
31. Chairperson of Chandigarh Social Welfare Board
32. Chairperson of Lakshadweep Social Welfare Board
33. Chairperson of Puducherry Social Welfare Board

III. Representatives from the Parliament

Lok Sabha

1. Smt . Kaiser Jahan
2. Dr. Kruparani Killi

Rajya Sabha

1. Shri. Rama Chandra Khuntia - up to 02.04.2014

IV. Professionals (one each from Law, Medicine, Social Work, Education ,Social Development and Nutrition):-

1. Shri Anurag Tiwari (Law)
2. Dr. Laroya (Medicine)
3. Dr. G.Muniratnam (Social Work)
4. Ms. Sangeeta Sanjay Deshmukh (Education)
5. Shri. R.K.Singla (Social Development)
6. Shri. Kapil Dev Prakash Rajput (Nutrition)

V Three Eminent persons with extensive experience in Social Work:-

1. Shri. Purshotham G. Sewhany
2. Ms. Tripti Parul
3. Shri. S.M. Sultan

VI. Representation from Ministries /Departments (of the rank of Joint Secretary) of the Government of India:-

1. Ministry of Women & Child Development
2. Ministry of Rural Development
3. Ministry of Health & Family Welfare
4. Ministry of HRD, Department of Secondary & Higher Education
5. Ministry of Social Justice & Empowerment
6. Ministry of Labour & Employment
7. Ministry of Finance, Department of Expenditure
8. Planning Commission
9. Financial Advisor, Ministry Women & Child Development

VII Executive Director, Central Social Welfare Board.

ANJU BHALLA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2013

सं. 1-19/2008-सीएसडब्ल्यूबी.—केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड संघ के अनुच्छेदों में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार 3 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तत्काल प्रभाव से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन करती है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारी समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

I अध्यक्ष

1. अध्यक्ष, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली

II राज्य समाज कल्याण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्रों के अध्यक्ष निम्नानुसार हैं :

1. आंध्र प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष
2. हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष
3. मेघालय राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष
4. उत्तर प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष
5. दिल्ली राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष

III भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि(संयुक्त सचिव के रैंक के)

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
6. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
7. वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

IV पेशेवर अधिकारी (सीएसडब्ल्यूबी के सामान्य निकाय से)

1. डा. जी मुणिरत्नम
2. श्री पुरुषोत्तम जी साहनी

V कार्यकारी निदेशक, सीएसडब्ल्यूबी

अंजु भल्ला, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2013

No. 1-19/2008-CSWB.—In accordance with the provisions contained in the Articles of Association of the Central Social Welfare Board, the Government of India is pleased to reconstitute the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (CSWB) with immediate effect for a period of 3 years or until further orders; whichever is earlier.

The following will be the members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board:

I. Chairperson

1. Chairperson, Central Social Welfare Board, New Delhi.

II Chairpersons of State Social Welfare Boards /Union Territories , as under:

1. Chairperson of Andhra Pradesh State Social Welfare Board
2. Chairperson of Haryana State Social Welfare Board
3. Chairperson of Meghalaya State Social Welfare Board
4. Chairperson of Uttar Pradesh State Social Welfare Board
5. Chairperson of Delhi State Social Welfare Board

III Representation from Ministries /Departments (of the rank of Joint Secretary) of the Government of India:-

1. Ministry of Women & Child Development
2. Ministry of Rural Development
3. Ministry of Health & Family Welfare
4. Ministry of HRD, Department of Secondary & Higher Education
5. Ministry of Social Justice & Empowerment
6. Ministry of Finance, Department of Expenditure
7. Financial Advisor, Ministry Women & Child Development

IV Professionals (from General Body of CSWB)

1. Dr. G.Muniratnam
2. Shri . Purshotham G. Sewhany

V. Executive Director of CSWB

ANJU BHALLA, Director